

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, बुधवार, मई 23, 1984/ज्येष्ठ 2, 1906
No. 65] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 23, 1984/JYAISTHA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(सरकारी उद्यम कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 4 मई, 1984

सं. ए. 12034/1/81-प्रशासन :—वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय के
दिनांक 3 सितम्बर, 1981 के सरकारी उद्यम जयन मंडल के पुनर्गठन विषयक ए.
12034/1/81-प्रशासन संश्लेष संकल्प की ओर ध्यान दिलाया जाता है। श्री सी. बेंकट-
रामन द्वारा सरकारी उद्यम कार्यालय के महानिदेशक का पद-भार छोड़ने पर वे 12 अप्रैल,
1984 (पूर्वाह्न) से सरकारी उद्यम जयन मण्डल के पदेन सदस्य नहीं रहे। राष्ट्रपति
महोदय ने श्री सूरतदास श्रीवास्तव द्वारा 12 अप्रैल, 1984 (पूर्वाह्न) से वित्त मंत्रालय
में विशेष सचिव तथा सरकारी उद्यम कार्यालय में महानिदेशक का पद-भार ग्रहण
किए जाने पर उन्हें सरकारी उद्यम जयन मण्डल का पदेन सदस्य नियुक्त किया है।

आवेश

आदेश है कि यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आवेश है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों और अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

धनू प्रकाश मुत्तल, सचिव,
सरकारी उद्यम चयन मण्डल ।

MINISTRY OF FINANCE
(Bureau of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 4th May, 1984

No. A. 12034/1/81-Admn :— Reference is invited to the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises Resolution No. A. 12034/1/81-Admn. dated the 3rd September, 1981 reconstituting the Public Enterprises Selection Board. On his relinquishing charge as Director General, Bureau of Public Enterprises with effect from 12th April, 1984 (Forenoon), Shri C. Venkataraman Ceased to be Member ex-officio of Public Enterprises Selection Board. Consequent on his assuming charge as Special Secretary, Ministry of Finance and Director General, Bureau of Public Enterprises with effect from 12th April, 1984 (Fore-noon), the President is pleased to appoint Shri S.D. Shrivastava as member ex-officio of the Public Enterprises Selection Board.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India (Extraordinary).

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, Public Undertakings and all others concerned.

C.P. MITTAL, Secy., Public Enterprises Selection Board